



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप खंड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 1973/आश्विन 12, 1895
 No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1973/ASVINA 12, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 4th October 1973

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 70-Customs, dated the 22nd May, 1972, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for S. No. 1 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
1.	“Aviation gasoline and Alkygates as are used only for producing aviation gasoline.	Rs. 35.00 per kilolitre at 15 degrees of Centigrade thermometer.”

[No. 133/F. No. 365/5/72-Cus.I.]

S. K. KOHLI, Under Secy.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1973

सा० का० नि० 469(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्तमन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 70 सीमा शुल्क, तारीख 22 मई, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)

(2)

(3)

“1. विमानन गैसोलिन और ऐसे एल्किलेट जो सेंटीग्रेड थर्मामीटर की 15 डिग्री पर केवल विमानन गैसोलिन के उत्पादन के लिए 35-00 ह० प्रति किलो लिटर।” प्रयोग किए जाते हैं।

[सं० 133 /फा० सं० 365/5/72-सीमाशुल्क]

एम० के० कोहली, अवर सचिव।